

PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED

compliance@phoenixindia.com

Date: 13-02-2025

To,
Department of Corporate Services
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001

Scrip Code: 526481, Scrip Symbol: PHOENXINTL ISIN: INE245B01011

Sub: Intimation regarding Newspaper publication of Unaudited Financial Results of Phoenix International Limited (The Company) for the Quarter Ended 31.12.2024

Dear Sir/Ma'am,

In compliance with the Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, We are pleased to inform you that Financial Results of The Company for the Quarter Ended 31.12.2024, Duly approved by Board of Directors of The Company at its meeting held on February 11, 2025 Are published in the Newspapers on 12.02.2025.

Please find enclosed herewith copies of newspaper publications of Results in "The Financial Express" (English Newspaper) and "Jansatta" (Hindi Newspaper) Dated 12.02.2025.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You,

For **PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED**

NARENDER KUMAR MAKKAR
(Company Secretary & Compliance Officer)

Encl: as above.



बड़ौदा यू.पी.बैंक Baroda U.P. Bank

अल्पकालिक निविदा

बाह्य उपकरणों के रख-रखाव और सेवा के लिए व्यापक एएमर्स अनुबंध के लिए महरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। सभी इच्छ्क फर्म / कंपनियां अपने प्रस्ताव / बोली निर्धारित प्रारूप पर 03.03.2025 तक डाक या किसी अन्य माध्यम से जमा कर सकते हैं।

बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और

निविदा दस्तावेज और अन्य जानकारी के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://www.barodaupbank.in/tender.php पर जाएँ

दिनांक: 11.02.2025 क्षेत्रीय प्रबंधक

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner



सकल वज़न

Bank of India ईमेल: ZO.DelhiNCR@bankofindia.co.in Relationship beyond banking

स्वर्ण आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी हेतु सूचना एतद्वारा निम्नलिखित स्वर्ण ऋण उधारकर्ताओं, उनके कानुनी उत्तराधिकारियों, स्वर्ण स्वर्ण / आमूषणों / सिक्कों के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा बार-बार अनुस्मारक / नोटिस के बावजूद, निम्नलिखित उधारकर्ता बैंक को

अपना बकाया नहीं चुका रहे हैं। एतद्वारा यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि यदि वे 27.02.2025 तक अपने संबंधित गोल्ड लोन खातों (अप-टू-डेट ब्याज और सभी लागत शुल्क / व्यय सहित) में अपनी सभी देय राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो 28.02.2025, को प्रात: 11.00 बजे से उनके बंधक रखे सोने के आभूषण / सिक्के शाखा परिसर में सार्वजनिक नीलामी के लिए रखें जाएंगे। इसके लिए संबंधित उधारकर्ताओं को हुई किसी भी असुविधा या क्षति के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं वहराया जाएगा और इस संबंध में किसी भी उधारकर्ता के किसी भी आरोप या अभ्यावेदन पर

विचार नहीं किया जाएगा। बोली में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को रुपये 500 /- (पांच सी रुपये मात्र) बयाना राशि निर्धारित समय / तिथि से पहले शाखा प्रबंधक के पास जमा करने होंगे।

अंतिम बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 48 घंटे के भीतर पूरी राशि बैंक में जमा करने में सक्षम होना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर बैंक में जमा उनकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी बैंक बिना कोई कारण बताए नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि बोली मुल्य कम या अपर्याप्त पाया जाता है। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो बँक उपरोक्त निर्धारित नीलामी की तिथि, समय या स्थान को बदलने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

गोविंदपुरा शाखा-गांव गोविंदपुरा पीओ हालुवास, भिवानी चरखी दादरी रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 148बी, भिवानी, हरियाणा-127021

कर्जदार का पता

	3	नाम		(ग्राम में)
1.	674377610001370	विजय पाल	वीपीओ वीपीओ धिराणा कलां तेह और जिला भिवानी 127021	8.470
	गुड़गांव सेक्टर सेव	-56 शाखा- टर 56, गुरु	- एससीओ—66, हुडा शॉपिंग ग्राम, हरियाणा—122011	सेंटर,
क्र.सं.	खाता	कर्जदार का नाम	पता	सकल वज़न (ग्राम में)
1.	673777610000068		सी/ओ मुस्कान वेल्डिंग वर्क्स, घाटा मोड, सेक्टर 56, हरियाणा	21,400
			गेल्ड रेलवे रोड, जैकबपुरा, गुरुग्राम, हरियाणा—122001	
क्र.सं.	खाता	कर्जदार का नाम	पता	सकल वज़न (ग्राम में)
ħ	670177610000011	राजेंदर कुमार	गांव ,गुद्धाणा, तेह पटौदौ, गुड़गांव हरियाणा, 122001	8.66
		VI-REITE	TAXABLE TO THE TAXABL	शाखा प्रबंधव

बैंक ऑफ़ इंडिया विवर्ग की कर्याईकी

क्र.सं. खाता

गांधी नगर शाखा X/918, चांद मोहल्ला, दिल्ली- 110031 फोन नं: 22077723, 22077724

परिशिष्टि-IV (नियम 8(1) देखें) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतू)

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियाँ के अंतर्गत कर्जदार मेसर्स महेश फैब्रिकेशन (प्रोप. महेश कुमार) को मांग सूचना दिनाक 19-11-2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि **कैश क्रेडिट खाता संख्या** 606030110000054 के लिए 29,68,021.98 रुपये + यूसीआई और जीईसीएल-डब्ल्यूसीटीएल खाता संख्या 606070410000012 के लिए 80,462.00 रुपये +:यूसीआई कुल 30,48,483.98 रुपये (तीस लाख अड़तालीस हजार चार सौ तिरासी और **अट्टानबे पैसे तथा उस पर ब्याज)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 80 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार, राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार, तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 07.02.2025 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते रु. 30,48,483.98 और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित खाते में वास्तविक वसूली को घटाकर के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि विस्तारित जी+4 रिहायशी सम्पत्ति नं. 1024 (ओल्ड) और नया नं. X/2688 प्लॉट नं. 20, खसरा नं. 203 में से, गली नं. 6ए, रघुबरपुरा नं. 2, गांधी नगर, गांव सीलमपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110031, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज या 41.80 वर्ग मीटर, यह सम्पत्ति श्री भंवरलाल पुरोहित के नाम पर है। चौहदी: उत्तर में – अन्य की संपत्ति, दक्षिण में – उक्त संपत्ति का भाग, पुरब में – गली नं. ६ए, पश्चिम में – अन्य की संपत्ति

चल संपत्ति का विवरण श्री मंवरलाल पुरोहित की सूद लाइफ पॉलिसी संख्या 01014363 का बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष

2. श्री भंवरलाल पुरोहित की सूद लाइफ पॉलिसी संख्या 01109093 का बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष

3. स्टॉक और बुक ऋणों का दृष्टिबंधक

15.10.2024 की जारी सरफेसी की धारा 13(4) के तहत पूर्व में जारी नोटिस वापस ले लिया गया

विनांक: 07-02-2025, स्थान: विल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया सीसी: श्री भंवरलाल पुरोहित (गारंटर)

बेंक ऑफ़ इंडिया	गांधी नगर शाखा X/918, घांद मोहल्ला, दिल्ली- 110031			
विशों की जमसूची	फोन नं: 22077723, 22077724			
	परिशिष्टि-IV (नियम 8(1) देखें)			

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

जबकि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पवित धारा 13(12) के अधीन प्रवत शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार मेसर्स योगेश ट्रेडिंग कंपनी (प्रोप. श्रीमती कमला सोलंकी) को मांग सूचना दिनांक 19-11-2024 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 26,43,189.00 (रुपये छब्बीस लाख तैंतालीस हजार एक सी नवासी मात्र) + केश क्रेडिट खाता संख्या 606030110000021 के लिए यूसीआई शुल्क उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

और कर्जदार श्रीमती इंदु देवी मुंधड़ा और श्री दिनेश कुमार मुंधड़ा को गांग सूचना दिनांक 22-06-2022 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 45,72,387.82 (रुपये पैतालीस लाख बहत्तर हजार तीन सौ सतासी और पैसे ब्यासी मात्र) + केश क्रेडिट खाता संख्या 606075110000087 के लिए युसीआई शुल्क उक्त सुबना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने को कहा गया था।

और कर्जदार मेसर्स मुंधड़ा गारमेंट्स (प्रोप. श्री इंदु देवी मुंधड़ा) को मांग सूचना दिनांक 18-02-2022 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 50,46,309.78 (रुपये पचास लाख छियालीस हजार तीन सी नौ और पैसे अड्डहत्तर मात्र) + कैश क्रेडिट खाता संख्या 606030110000010 के लिए युसीआई शुल्क उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60

दिनों के अंदर प्रति भगतान करने को कहा गया था। कर्जदार, राशि का प्रतिभगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार, तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का

कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 07.02.2025 को लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न

करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते रु. 1,22,61,886.60 और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित खाते में वास्तविक वसुली को घटाकर के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि विस्तारित आवासीय संपत्ति सी/1003, 10वीं मंजिल, एक्सप्रेस ग्रीन सोसायटी, सेक्टर 1, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010 श्रीमती इंद देवी मुंधरा और श्री दिनेश कुमार मुंधरा के नाम पर गाजियाबाद पंजीकरण के अंतर्गत। चौहद्दीः उत्तर में: फ्लैट नंबर सी-1004, दक्षिण में: फ्लैट नंबर सी-1002, पूर्व में: खुला, पश्चिम नोटः मेसर्स मुंघरा गारमेंट्स के खाते में 10.08.2022 को जारी सरफेसी की घारा 13(4) के तहत

पहले के नोटिस, श्रीमती इंदु देवी मुंघरा और श्री दिनेश कुमार मुंघरा के खाते में जारी दिनांक 17.10.2022 का नोटिस और मेसर्स योगेश ट्रेडिंग के खाते में जारी दिनांक 07.10.2024 का नोटिस वापस लिया जाता है।

दिनांक : 07-02-2025, स्थान : दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया सीसी: श्री रमेश सोलंकी (गारंटर), श्रीमती इंदु देवी मुंधरा (गारंटर) श्री दिनेश मुंधरा (गारंटर), श्री यश मुंधरा (गारंटर)

SMFG Grihashakti एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व मेंफुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

कॉर्पोरेट ऑफिस :503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसपायाबीकेसी, बीकेसीमेनरोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400 051 रजि. ऑफिसः कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई – 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबिक अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ख्राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली), (इसके बाद इसे एसएमएफजी के रूप में संदर्भित किया गया है) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 3 के तहत धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2002 में उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित डिमांड नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आपको उधारकर्ता (नीचे उल्लिखित नाम) होने के नाते उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। नीचे उल्लिखित उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उप के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13 की धारा (4) को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ कब्जा ले लिया है। ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सामान्य रूप से जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति और किसी के साथ लेनदेन न करें। संपत्ति के साथ लेनदेन नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए 'एसएमएचएफसी' के शुल्क के अधीन होगा।

क्रं	उधारकर्ता (ओं) / गारंटर (ओं)	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की
सं.	का नाम लैन		एवं राशि	तिथि
54	लैन:— 611439511580569 1 आशु कुमार 2 मोनिका कपूर,	मकान नंबर आर—47, प्रॉपर्टी आईडी नंबर 1जीएनआरबीएम25 (ओएलडीपी03702440307) माप 115 वर्ग गज, वार्ड नंबर 6, पुराने शहर पानीपत तहसील और जिला पानीपत में स्थित है। सीमाएं:— पूर्व:— दक्षिण से उत्तर 21'—9", पूर्व की ओर 12'—0" और उत्तर की ओर 19'—7" 13'—5" मकान आर—44, 45,46, पश्चिमः— 54'—5 और मकान नंबर 4—48, उत्तरः— 25'—9" और जीत और किला का मकान, दक्षिणः— 10'—9" और रोड।	20.11.2024 रु. 30,71,208 / – (रुपये तीस लाख इकहत्तर हजार दो सौ आठ मात्र) 16.11.2024 तक	10.12.2025

Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted

Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted

स्थान पानीपत, हरियाणा दिनांकः 10.02.2025

प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनीलिमिटेड (पूर्व मेंफुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)



विकास मार्ग शाखा ए 45, 46 लक्ष्मी नगर, मधुबन चौक के पास, विकास मार्ग, दिल्ली 110092 फोन: 011-41830717. ई-मेलः VikasMarg.NewDelhi@bankofindia.co.in

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **बैंक ऑफ इंडिया**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत उधारकर्ता सुश्री निशा झा और (गारंटर) श्री रमेश कुमार शुक्ला को मांग सूधना दिनांक 29-10-2024 को जारी किया था जिसमें सुधना में उल्लेखित राशि रु. 22,97,741.77 (रु. बाईस लाख सतान्वे हजार सात सौ चौहत्तर इकतालीस पैसे सतहत्तर मात्र) साथ में अतिरिक्त ब्याज और बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), जक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पंडित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 06.02.2025 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदहारा उक्त संपत्ति के साथ लेन—देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **बँक ऑफ इंडिया**, विकास मार्ग शाखा, ए 45, 46 लक्ष्मी नगर, मधुबन चौक के पास, विकास मार्ग, दिल्ली 110092 के प्रभार वास्ते रु. 22,97,741.77 (रु. बाईस लाख सतान्वे हजार सात सौ चौहत्तर इकतालीस पैसे सतहत्तर मात्र) साथ में अतिरिक्त ब्याज और बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों इत्यादि सहित

उघारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित

परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत् उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड डीडीए जनता फ्लैट, निर्मित एलआईजी फ्लैट नं. 154, द्वितीय तल, पॉकेट 3सी, सैक्टर-16बी, द्वारका नई दिल्ली-110078 में स्थित क्षेत्रफल 42 वर्ग भी., यह सम्पत्ति सुश्री निशा झा के नाम पर है। चौहदी: उत्तर में - नीचे खुला / फ्लैट नं, 153, दक्षिण में – नीचे खुला, पूरब में – अन्य का फ्लैट, पश्चिम में – प्रवेश / सीवियाँ / पलैट नं. 155

दिनांक : 06-02-2025, स्थान : दिल्ली

0.23

0.23

प्राधिकत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

1.20

1.20

0.85

0.85


Narender Kumar Makkar Director & Company Secretary

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

1.36

1.36



FINANCIAL EXPRESS

CIN: L74899DL1987PLC030092 Regd. Off.: 3rd Floor, Gopala Tower, 25, Rajendra Place, New Delhi - 110008 EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2024 (Rs. in Lacs) Consolidated Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended 3 months 3 months Corresponding 3 Corresponding Nine **Particulars** year ended Month ending in the 31.12.24 ended Months ending in the ended 31.03.2024 31.12.2024 previous year 31.12.2023 30.09.2024 previous year 31.12.2023 UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED AUDITED 2,778.78 621.14 578.52 668.54 1,812.47 2,097.77 73.99 57.18 38.33 202.12 142.36 238.48 Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) 73.99 57.18 38.33 202.12 142.36 227.56 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)

0.34

PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED

0.44 0.34 The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11.02.2025 Standalone Financial Information:

(Rs. In Lacs) STANDALONE Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended Corresponding 3 Months 3 months 3 months Corresponding Nine **Particulars** year ended 31.12.24 ended ended ending in the previous Month ending in the 31.03.2024 31.12.2024 30.09.2024 year 31.12.2023 previous year 31.12.2023 UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED AUDITED UNAUDITED Total income from operations (net) 668.54 1,812.47 2,097.77 2,777.31 73.99 57.17 202.79 254.26 Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax 38.69 143.01 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) 73.99 57.17 143,01 243,34 38.69 202.79 1,678.96 1,678.96 Equity Share Capital 1,678,96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted 0.44 0.34 0.23 1.21 0.85 1.45 Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted 0.44 0.34 0.23 1.21 0.85 1.45

0.44

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and company's website www.phoenixindia.com For Phoenix International Limited

Place: Gurugram Date- 11.02.2025

116

PHOENIX

Total income from operations (net)

DIN: 00026857 र्ड-नीलामी

Firficialism, SyndicateBank

वसूली विभाग, अंचल कार्यालय 7वां तल, अंसल टॉवर, 38, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 फोनः 011-26292604; 26419921

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सूथित किया जाता है, कि प्रतिभृति ऋणदाताओं को बंधक/दृष्टिबंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति, जिस पर केनरा बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, को ''जहां है जैसी है'', ''जो है क्या है' और जैसी हैं के आधार पर नीचे वर्णित दिनांकों को बंधक सम्पत्ति की बिक्री आयोजित की जाएगी। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन धारा अधिनियम 2002 के अधीन बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स सी1 इंडिया, श्री मिथलेश कुमार, मोबाइल नं. 7080804466 ईमेल: delhi@c1india.com, shibu.babu@c1india.com या केनरा बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com में दिए गए लिंक 'ई-नीलामी'' को देखें। आरक्षित मुल्य की 10 प्रतिशत की ईएमडी राशि को डिमांड डाफ्ट के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी के पक्ष में या नीचे वर्णित खाता नं. में आरटीजीएस / एनईएफटी / फंड ट्रास्फर के माध्यम से जमा कराई जानी चाहिए।

200000	क्र. सं.	शाखा का नाम कर्जदार / गारंटर्स / बंधककर्ता का नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का विवरण और कब्जे की स्थिति	कुल बकाया राशि	a. आरक्षित मूल्य (रु.) b. धरोहर राशि (रु.) c. बोली वृद्धि (रु.) d. बिक्री सूचना की तिथि	खाता नं. और IFSC कोडः	इ-नालामा का तिथि एवं समय (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	प्राधकृत अधकारा स पूर्व अपोंइटमेंट लेकर सम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है और सम्पर्क व्यक्ति का नाम
	10.	उधारकर्ताः श्री सार्थक शर्मा पुत्र श्री विजय शर्मा,	ऑटो मॉडलः न्यू कम्पास लिमिटेड (0) 2.0D 4X4 AT, निर्माता का नामः जीप, निर्माता वर्ष / माहः 2023 / 02, पंजीकरण संख्याः DL1CAG2939, पंजीकरण प्राधिकरणः दिल्ली, वाहन का प्रकारः 4 व्हीलर, इंजन सं. 4095700 चेसिस संख्याः MCANJRCY6MFA71505°2M (मौतिक कब्जे में वाहन)	और दिनांक 11.02.2025 से लागू भविष्य का ब्याज साथ में खर्चे एवं अन्य प्रभार इत्यादि संहित	a. 17,01,000/- b. 1,70,100/- c. 10,000/- d. 11-02-2025	Account No. 209272434 Account Name – SL OL RTGS NEFT PMT IFSC - CNRB0002817	28-02-2025 अपराह 12:30 बजे से अपराह 01:30 बजे के बीच 27-02-2025 अपराह 04:00 बजे तक	25.02.2025 से 27.02.2025 प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच श्री रॉबिन सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक, मो9643242465, श्री शशि शेखर, मो. 7021682530

इच्छक बोलीदाता अन्य विवरण और संपत्तियों के निरीक्षण के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक 11-02-2025, स्थान : नई दिल्ली

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda



इंदिरापुरम शाखा, प्लॉट नंबर 69, अहिंसा खंड-2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201014

ई-नीलामी-बिक्री-सूचना चल संपत्तियों की बिक्री हेतू बिक्री सूचना

(1) वाहनों के निरीक्षण की तिथि दिनांक 03.03.2025 तक पूर्व नियुक्ति के साथ (2) धरोहर जमा राशि (ईएमडी) और केवाईसी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 15.03.2025 सायं 2:00 बजे या उससे पूर्व (3) ई-नीलामी की तिथि 15.03.2025 कार जब्दी नोटिस द्वारा कब्जे के तहत चल संपत्तियों की बिक्री हेतू ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रीं) और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक / गिरवी / बंधक / प्रभारित है, का **भौतिक कब्जा और रचनात्मक कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्दिरापुरम गाजियाबाद शाखा, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेत् दिनांक 15.03.2025 को बेचा जाएगा।

	भौतिक ई—नीलामी की तिथि / समय सम्पर्क व्यक्ति कब्जा खाता नं. IFSC कोड
1 सुश्री रोजी पुत्री श्री विनोद कुमार पताः मकान नं. 77, राधाकुंज कॉलोनी, मरीओम हॉस्पिटल के पास, नंदग्राम, गाजियाबाद, यू.पी.—201001, पताः मकान नं. 21, चंद्रपुरी, गाजियाबाद, यू.पी.—201001, पताः मकान नं. 28, गली नं. 10, सेवा नगर पार्ट—1, गाजियाबाद, यू.पी.—201001 पारंटरः श्री अमित कुमार गुप्ता पुत्र श्री एस.पी. गुप्ता, पताः मकान नं. 21, चन्द्रपुरी, गाजियाबाद, यू.पी.—201001 बैठने की क्षमताः 5 चालक सहित	मात्र) और खाता नं. 77460015181869 9910739562 उस पर Account Name: SARFAESI AUCTION

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://bob.auctiontiger.net/EPROC/prospective पर दिए गए लिंक को देखें। इच्छक बोलीदाता उपरोक्त तालिका में उल्लिखित मोबाइल पर प्राध्कृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 11-02-2025, स्थान : गाजियाबाद





बैंक ऑफ बड़ौदा, मोरना शाखा, बी1-ए/12, सेक्टर 51, गौतमबुद्ध नगर, यूपी -201301 (ਜੇਲ आईडी morna@bankofbaroda.co.in)

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस, परिशिष्ट-IV-A [नियम 6(2) & 8 (6) देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) & 8 (6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई—नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का **कब्जा**, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी हैं ' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जवार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को प्रत्याभुत - दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसुली हेत् नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) / प्रतिभृति आस्तियां / बकाया / आरक्षित मृत्य / ई—नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है


लॉ सं	कर्जदार्स / गारंटर्स / बंधककर्ताओं का नाम एवं पता	ज्ञात भार के साथ अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई हो	कुल बकाया	ई—नीलामी की तिथि / समय	आरक्षित मूल्य जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. न्यूनतम बोली वृद्धि राशि रु.	कब्जा की स्थिति	निरीक्षण की तिथि एवं समय
1.	उधारकर्ताः श्री मनोहर शंकर झा पुत्र श्री रामकांत झा सह-उधारकर्ताः श्रीमती लक्ष्मी झा पत्नी श्री मनोहर शंकर झा, पता 1: ऊपरी तल पर पलैट, सामने की ओर संपत्ति सं. 17—बी, खसरा सं. 642, मोहन गार्डन, गांव नवादा, उत्तम नगर, नई दिल्ली — 110059 । पता 2: मकान संख्या डी—114, दूसरी मंजिल, साउथ गणेश नगर, नई दिल्ली — 110092	साथ, खसरा संख्या ६४२ में से, मोहन गार्डन, गांव नवादा, उत्तम नगर,	इक्यान्वे हजार अड्डासी मात्र) दिनांक 28.09.2024 तक ब्याज.	18.03.2025 अपराइ 02.00 वजे से अपराइ 06.00 बजे तक		सांकेतिक	11.03.2025 को पूर्वाइ 10.00 बजे से अपराइ 02.00 बजे तक
2.	उधारकर्ताः श्री पवन कुमार पुत्र श्री सियाराम महाराज सह—उधारकर्ताः श्रीमती बबीता शर्मा पत्नी श्री पवन कुमार दोनों फ्लैट ऊपरी तल, बैक साइड सम्पत्ति नं. 17—बी, खसरा नं. 642, मोहन गार्डन, गांव नवादा, उत्तम नगर, नई दिल्ली — 110059	ऊपरी भूतल (पीछे की ओर) पर फ्लैट, बिना छत के अधिकार के, संपत्ति सं. 17—बी, 103 वर्ग गज के आनुपातिक क्षेत्रफल के साथ, खसरा सं. 642, मोहन गार्डन, गांव नवादा, उत्तम नगर, नई दिल्ली — 110059 श्री पवन कुमार पुत्र श्री सियाराम महाराज और श्रीमती बबीता शर्मा पत्नी श्री पवन कुमार के नाम पर है।	लाख अड्डासी हजार सत्तावन और पैसे साठ मात्र) दिनांक 10.09.2022	03.03.2025 अपराह 02.00 बजे से अपराह 06.00 बजे तक	आरक्षित मूल्य रु. 25,00,000/- ईएमडी रु. 2,50,000/- बोली वृद्धि राशि रु. 25,000/-	मौतिक	24.02.2025 को पूर्वाह 10.00 बजे से अपराह 02.00 बजे तक

दिनांक : 11-02-2025, स्थान : नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

www.readwhere.com







1. Basic (Rs.)

2. Diluted (Rs.)

Date: 11th February, 2025

Place: Delhi

FINANCIAL EXPRESS

REGAL ENTERPRISES LIMITED REG. OFFICE:Shop No G-2 Plot No 5. Kohli Plaza Block-CU Market.

Pitampura, Maurya Enclave, North West Delhi, India, 110034 Email: regalenterpriseslimited@gmail.com Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2024 (Rs. in Lakh)

Quarter Nine months Correspond- Previous ended 31st | ended 31st | ing 3 month | Year ended Particulars December December ended 31st 31st March 2024 2024 December 2023 2024 Total Income from Operations 0.00 0.00 0.00 0.00 Net Profit / (Loss) for the period (before -690.98 -716.76 2142.32 403.24 tax and Exceptional items) Net Profit / (Loss) for the period before -690.98 -716.76 2142.32 403.24 tax (after Exceptional items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items) 690.98 -716.76 2142.32 403.24 Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) -690.98 403.24 -716.76 2142.32 316,480 316,480 316,480 Equity Share Capital 316,480 Reserves (excluding Revaluation Reserve) Earnings Per Share (of ₹10/- each):

The above is an extract of the detailed format of the Statement of Unaudited Financial Resultsfor then quarter and nine months ended on 31st December, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 11th February, 2025. The full format of the Statement of Unaudited Financial Results are available on the website of MSEI Limited (www.msei.in).

-0.02

-0.02

Previous year's/period's figures have been regrouped / rearranged; wherever considered necessary, to confirm to current year's classification.

The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 has been completed and the related Report does not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter and nine months ended on 31st December, 2024 which needs to be explained. For Regal Enterprises Limited

> sd/-FIRDAUS Director DIN:10650301

0.07

0.07

-0.02

0.02

0.01

0.01

KAIROSOFT AI SOLUTIONS LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS PANKAJ PIYUSH TRADE AND INVESTMENT LIMITED) Registered Office: DPT612, F-79& 80, DLF Prime Towers, Okhla Industrial Estate, South Delhi, India, 110020 Phone: (011) 44781747, Email: infopptinvestment@gmail.com CIN: L22209DL1982PLC256291, Website: www.pptinvestment.in

EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 31ST DECEMBER, 2024 (Amount in Lakhs.)

	1	Three	months per	iod ended	Nine Months	Year Ended	
S. No.	PARTICULARS	Current 3 Months Quarter ended (01.10.2024 to 31.12.2024 (Rs.)	Quarter ended on 30.09.2024 (Rs.)	Previous year quarter ended (01.10.2023 to 31.12.2023)	to 31.12.2024)	Previous year quarter (01.10.2023 to 31.12.2023) (Rs.)	year ended (01.04.2023 to 31.03.2024) (Rs.)
		(un-audited)	(un-audited)		(un-audited)		(Audited)
1.	Total Income from Operations	47.65	44.30	35.98	137.85	119.36	180.11
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	28.98	32.84	-0.75	80.58	58.46	51.15
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	108.98	32.84	-0.75	60.58	58.46	-454.49
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	84.40	32.84	-0.16	140.09	44.13	+454.49
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	84.40	32.84	-0.16	140.09	44.13	-454.49
6.	Paid Up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/-) each	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		**			· ·	(14)
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	1. Basic:	21.10	8.21	-0.04	35.02	11.03	-113.63
	2. Diluted.	21.10	8.21	-0.04	35.02	11.03	-113.63

Place: New Delhi

Date: 11th February, 2025

These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (referred to as "Ind AS") 34 - Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards Amendment) Rules, 2016 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable

The above unaudited financial results for the quarter ended on 31st December, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th February, 2025.

The statutory auditors have carried out limited review of the above results for the quarter ended December 31st, 2024. However, the management has exercised necessary due diligence to ensure that the financial results provided true and fair

4.) Figures for the prior period have been regrouped and / or rearranged wherever considered necessary as per the revised format prescribed by SEBI under SEBI (LODR) Regulations, 2015 and amended as per the Schedule III of the Companies Act, 2013.

These Results are also updated on the company's website www.pptinvestment.in

For Kairosoft Al Solutions Limited SAGAR KHURANA

MANAGING DIRECTOR DIN: 07691118

E-AUCTION SALE NOTICE

06.03.2025

11:00 Hrs. to 16:00 Hrs.

PUBLIC NOTICE

In CP(IB) No. 251/Chd/Pb/2023 Pursuant to Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench order dated 07.01.2025 State Bank of India Vs Manoj Kumar Aggarwal IA. No: 2446 of 2024

Next date: 17.02.2025 Publication is being issued to the following respondent as per the directions of Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench vide its order dated 07.01.2025 in IANo. 2446 of 2024 filed by the Resolution Professional for non-cooperation against the respondent.

Respondent: Respondent No. Name of the Addresses

Respondent Manoj Kumar Address 1: Resident of House No. 512, Ward No. Respondent I.A No. 2446 of 2024) 10, Sahjada Nangal, Gurdaspur - 132024 Address 2: Nangali Vatika, House No. 632, Ward

Therefore, the RP hereby adopt a substitute mode of service for the respondent mentioned above through publication and the same was also directed by the Hon'ble NCLT vide the same order dated 07.01.2025 in IA No. 2446 of 2024, in the matter of Rajender Kumar Jain Versus Manoj Kumar Aggarwal. Further, notice is hereby given that next date of hearing in IA 2446 of 2024 before the

In above titled case, Respondent could not be served notice through speed post.

Hon'ble NCLT, Chandigarh Bench is 17.02.2025 and the respondent is advised to attend the aforesaid hearing on 17.02.2025. The above respondent is directed to file his reply before the Hon'ble NCLT. Chandigarh Bench within one week after receipt of this notice with a copy in advance to the counsel of

For details refer to link given below:https://nclt.gov.in/ The undersigned can be contacted for any clarification.

Rajender Kumar Jain (Regn No. IBBI/IPA-001/IP-P00543/2017-18/10968) Date: 11.02.2025 Resolution Professional Place: Chandigarh In the matter of Manoj Kumar Aggarwal

"IMPORTANT"

No. 4, BSF Road, Gurdaspur (PB)

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

NEW LIGHT APPARELS LIMITED

CIN:- L74899DL1995PLC064005, GC-29, Basement, Shivaji Enclave, Raja Garden Delhi-110 027; E-mail : newlight.appareis@gmail.com Statement of Unaudited Standalone Result for the Quarter / Period ended 31st December 2024

		Quarter Ended			Nine Month Ended		Year Ended	
Šr.	Particulars	31.12.2024	30.09-2024	31.12.2023	31.12.2024 31.12.2023		31.03.2024	
10.	National Action (Action Control of Control o	(Un-Audited)	NAME AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Un-Audited)	(Audited)	
	Income from operations	100		A	111	(A)	7	
	Net sales / Income from operations	773,20	542.38	433.88	1,387.63	617.36	1205.27	
1	Other Income	-	-	0.12	-	0.48	12.17	
	Total	773.20	542.38	434.00	1,387.63	617.84	1217.44	
7-	Expenses		0 j	3			5	
	a) Purchase of Stock in Trade	899.57	193.08	407.88	1,165.99	550.99	1226.11	
	b) (Increase) / decrease in inventories of traded goods	(244.95)	297.09	7.03	24.44	21.12	-144.98	
2	c) Employee benefit expenses	9.10	6.68	2.46	15.68	6.48	9.04	
2	d) Depreciation & amortizations expenses	1,15	1.04	0.80	3.21	2.37	3.11	
	e) Finance Costs	1.19	0.35	0.68	2.00	4.15	3.18	
	f) Other expenses	52.64	10.55	12.77	85.42	34.14	84.25	
	Total	718.70	508.81	431.61	1,296.74	619.24	1180.71	
3	Profit / (Loss) from continuing operations Before exceptional items and tax (1-2)	54.50	33.57	2.38	90.88	-1.40	36.73	
4	Provision Reversal For DTA				- 6	- 1	0.09	
5	Profit / (Loss) from continuing operations before tax (3-4)	54.50	33.57	2.38	90.88	-1.40	36.64	
6	Provision for Tax	- 25	3	0.55	5.7	· -	8	
7	Net Profit / (Loss) from continuing operations (5-6)	54.50	33.57	1.84	90.88	-1.40	36.64	
	Other Comprehensive Income		100000	11.50,000	1000000			
	i) Item that will not reclassified to statement of profit and loss	25	9	5		8		
8	ii) Tax on Item that will not reclassified to statement of profit & loss		9	2	-			
	iii) Items that will not fbe reclassified to Profit & Loss:	- 1	9	- 2		54		
	iv) Tax relating ti items that will not be classified to Profit & Loss:		2	2	6.5	-	-	
9	Total Comprehensive Income (7-8)	54.50	33.57	1.84	90.88	-1.40	36.64	
10	Weighted Average Number of Equity Shares (Equity Shares of ₹ 10/- each till 09th Oct' 2024 and Equity Shares of ₹ 1/- each from 10th Oct' 2024)	798.24	78.22	21.96	798.24	21.96	21.96	
	Earning Per Share (Face Value of ₹ 10/- each till 09th Oct' 2024 and ₹ 1/- each from 10th Oct' 2024)							
11	Earnings Per Share from continuing operation before exceptional item (Not Annualised)							
	a) Basic	0.07	0.43	0.08	0.11	(0.06)	1.67	
	b) Diluted	0.07	0.43	0.08	0.11	(0.06)	1.67	

Notes :-

The above is an extract of the detailed format of unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of unaudited Financial Results along with Limited Review Report for the quarter ended 31st December, 2024 is available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the website of the Company (www.newlightapparels.com).

The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 11th February, 2025. The above results reviewed by statutory auditors and who have expressed an unmodified opinion on these results as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The Financial Results of the Company has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) notified under the Companies

(Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 and other accounting principles generally accepted in India. For and On behalf of Board of Directors of New Light Apparels Limited

Sandeep Makkad

Place: New Delhi Date: 11.02.2025 DIN-01112423, (Managing Director)

PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED CIN: L74899DL1987PLC030092 Regd. Off.; 3rd Floor, Gopala Tower, 25, Rajendra Place, New Delhi - 110008 EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2024

(Rs. in Lacs) Consolidated Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended 3 months 3 months Corresponding 3 Corresponding Nine **Particulars** year ended Months ending in the ended ended 31.12.24 Month ending in the 31.03.2024 31.12.2024 previous year 31.12.2023 previous year 31.12.2023 30.09.2024 UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED AUDITED UNAUDITED Total income from operations (net) 578.52 668.54 1,812.47 2,097.77 2,778.7 Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax 73.99 57.18 38.33 202.12 142.36 238.48 73.99 57.18 142.36 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) 38.33 202.12 227.56 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.98 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted 0.44 0.34 0.23 1.20 0.85 1.36 Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted 0.44 0.34 0.23 1.20 0.85 1,36

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11.02.2025

Standalone Financial Information: (Rs. In Lacs) STANDALONE Nine Months Ended Quarter Ended Year Ended 3 months 3 months Corresponding 3 Months Corresponding Nine Particulars Month ending in the ending in the previous ended 31.03.2024 31.12.2024 30.09.2024 year 31.12.2023 previous year 31.12.2023 UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED AUDITED 621.14 578.52 668.54 1,812.47 2,097.77 2,777.3 Total income from operations (net) 73.99 57.17 38.69 202,79 143.01 254.2 Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax 73.99 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) 57.17 38.69 202.79 143.01 243.34 Equity Share Capital 1,678.96 1.678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) 0.44 0.34 0.23 1.21 0.85 1.45 Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted 0.44 0.34 0.23 0.85 1.45 Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted 1.21

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and company's website www.phoenixindia.com For Phoenix International Limited Narender Kumar Makkar

Place: Gurugram Date- 11.02.2025



Director & Company Secretary DIN: 0002685

CAPITAL TRADE LINKS LIMITED (CIN: L51909DL1984PLC019622)

Regd.Office:102-103, First Floor, Surya Kiran Building, 19 K.G. Marg, Connaught Place, New Delhi: 110001, Email: cs@capitaltrade.in; Website: www.capitaltrade.in

NOTICE OF POSTAL BALLOT (THROUGH REMOTE E-VOTING) (Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22

of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014)

Notice is hereby given, pursuant to the provisions of Section 108 and 110, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended (the "Act"), read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended (the "Management Rules"), General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39 2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated Decembe 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, 11/2022 dated December 28, 2022, 09/2023 dated September 25, 2023 and 09/2024 dated September 19, 2024, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circulars"), Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "LODR Regulations") and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being it force), that the company is seeking approval of members for the special business as set out in the postal ballot notice dated February 07, 2025 (Postal Ballot Notice). Members are informed that the Postal Ballot Notice dated Friday, February 07, 2025 ("Cut-Off Date") along with relevant Explanatory Statement and e-voting instructions for remote e-voting have been sent to members who have registered their email addresses with the company o

The Postal Ballot Notice has been sent to those members whose names appeared in the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from the depositories as on Cut Off Date. The voting rights shall be reckoned on the paid-up value of the shares registered in the name of members as on the Cut-Off Date. A person who is not a member as on the Cut-Off Date should treat this notice for information purpose only

depository participants(s) on their registered e-mail addresses.

Members should note that in terms of the MCA Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, no physical ballot form is being dispatched by the Company and the Members can cast their vote using remote e-voting facility only.

Pursuant to the MCA Circulars, Members whose email addresses were not registered with the Company or depository participant(s) as on the Cut Off Date, are requested to register their email addresses by sending an email citing subject line as "Capital Trade Links Limited - Postal Ballot-Registration of e-mail Ids to our RTA i.e. MAS Services Limited at info@masserv.com or to the Company at cs@capitaltrade.in with name of registered shareholder(s), DP Id(s) Client Id(s) and No. of equity shares held from the email address they wish to register to enable them to exercise their vote(s) on the special business as set out in the Postal Ballot Notice through remote e-voting facility provided by NSDL Details of Postal Ballot/E-voting Schedule:

ar. No.	Particulars	Schedule
1	Cut-off Date for identification of voting rights of the members	Friday, February 07, 2025
2	Date of Completion of dispatch of Postal Ballot Notice	Tuesday, February 11, 2025
3	Date and time of commencement of remote e-voting	Wednesday, February 12, 2025 [09:00A.M.]
4	Date and time of end of remote e-voting	Thursday, March 13, 2025 [05:00P.M.]
5	Remote e-voting shall not be allowed beyond	Thursday, March 13, 2025 [05:00P.M.]
6	Submission of report by the Scrutinizer	On or before Tuesday, March 18, 2025
7	Date of declaration of results of voting	On or before Tuesday, March 18, 2025
Members	s are further informed that:	12

Members can vote only through remote e-voting facility provided by NSDL as no physical ballot form is being dispatched or will be accepted by the Company.

A member who has not received Postal Ballot Notice on their registered email address along with relevant Explanatory Statement and e-voting instructions for remote e-voting may obtain the same by sending an email to our RTA ie. MAS Services Limited a info@masserv.com or to the Company at cs@capitaltrade.in.

A copy of the Postal Ballot Notice and the procedure for registration of email addresses of members are also available on the website of the Company at www.capitaltrade.in. The Postal Ballot Notice along with Explanatory Statement is also available on website. of BSE Limited ("Stock Exchange" where the equity shares of the Company are listed) The Board has appointed Mr. Attiuttam Prasad Singh (M.No.: F8719, CP No.: 13333) Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer ("Scrutinizer") for conducting the evoting process in a fair and transparent manner.

All grievances connected with respect to the proposed resolution or the Postal Ballot E-voting can be addressed to Ms. Kunika Agarwal, Company Secretary by sending an

For any queries or grievances pertaining to e-voting, shareholders are requested to

contact Sharwan Mangla, General Manager, Mas Services Limited, T-34 2nd Floor Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi 110020. Contact details; Email id- info@masserv.com or investor@masserv.com; Contact number-011-26387281.82.83

The Scrutinizer will submit his report to the Chairman or any other person authorized by

the Chairman after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result will be announced on or before Tuesday, March 18, 2025, and will also be displayed on the Company's website (www.capitaltrade.in) and on the website of NSDL (www.evoting.nsdl.com), and communicated to the stock exchanges, depository, registrar and share transfer agent.

Place: New Delhi

Date: February 11, 2024

For Capital Trade Links Limited, Kunika Agarwal

Cahadula

(Company Secretary and Compliance Officer)

OSBI STATE BANK OF INDIA

STRESSED ASSETS MANAGEMENT (SAM) BRANCH, GROUND FLOOR, ZONAL BUSINESS OFFICE BUILDING, FOUNTAIN CHOWK, CIVIL LINES, LUDHIANA

E-AUCTION SALE NOTICE 06.03.2025 11:00 Hrs. to 16:00 Hrs.

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES ON 06.03.2025, 11:00 HRS. TO 16:00 HRS. THE EARNEST MONEY IS TO BE DEPOSITED ALONG WITH KYC DOCUMENTS ONLINE AT THE WEB PORTAL https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration ON OR BEFORE 05.03.2025

E-Auction Sale Notice for Sale of Movable/Immovable properties under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) & 6(2) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrowers and guarantors that the below described immovable properties mortgaged/charged to State Bank of India (Secured Creditor), the constructive/physical possession of these properties has been taken by the Authorised Officers of State Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is basis" on 06.03.2025 for recovery of bank dues + interest (as mentioned below against the properties) due to the State Bank of India (Secured Creditor) from below mentioned borrowers/guarantors. The Reserve Price and Earnest Money Deposit will be as mentioned below against the properties.

Detailed terms and conditions of the sale are mentioned below/refer to Website:(a) https://sbi.co.in/(b) https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration **DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES Reserve Price** Date & Time Date/ Time **Amount Outstanding** Name of Borrower(s)/ Sr. EMD of inspection Properties ID Nos & Details of property/ies Nos.

Guarantor(s) **Possession Date** of property Bid Increase Amt. e-Auction 1. M/s. OSWAL APPARELS PVT. LTD., G.T. Road Allahabad Bank (ASREC (India) Ltd.): Rs. Property ID: SBIN100001451673: LOT: 1. Land measuring LOT : 1. 06.03.2025, (West), Opp. Balwant Sales Corporation, Jalandhar Bye 32,27,50,935.31 inclusive of intt. upto 6-2/3 Marlas or 200 Sq. Yards comprised in Khasra No. 50//19-Rs. 0.36 Crore SYMBOLIC 11:00 Hrs. Pass,Ludhiana. **2. Sh.Vikas Jain** S/o Late Sh. Kimiti Lal Jain, 31.03.2013 + intt. w.e.f. 01.04.2013 along with 20-49//16-50//29-21/1-22/1 Khata No.142/164-144/166-Rs. 3.60 Lacs POSSESSION G.T. Road (West), Opp. Balwant Sales Corporation, costs, charges & etc. SBI: Rs. 50,71,81,081/- 147/169 at Jalandhar Bye pass, Ludhiana, in the name of Smt. Rs. 0.25 Lacs 16:00 Hrs. inclusive of intt. upto 18.01.2014 + at agreed Meena Jain, as per Wasika No. 3927 dt. 11.05.1999 /Will No. 78 Jalandhar Bye Pass, Ludhiana. 3. Sh. Tina Jain W/o rate exp. & charges. Demand Notice: dated 23.04.2007. Sh.Vikas Jain, G. T. Road (West), Opp. Balwant Sales 02.04.2013 (Allahabad Bank), & 18.01.2014 Property ID: SBIN100001453826: LOT: 2. Land measuring LOT : 2. Corporation, Jalandhar Bye Pass, Ludhiana. 4. Smt. Meena (SBI), Symbolic Possession: 23.09.2014 06.03.2025, 26.02.2025, **Rs. 1.09 Crore** 7K-4M (4356 Sq. Yards) situated at Hardev Nagar, Bhamian 11:00 Hrs. Jain W/o Late Sh. Kimiti Lal Jain, G. T. Road (West), Opp. Physical Possession: LOT 2: 14.10.2022 11:30 Hrs Kalan, Tajpur Road, Ludhiana, Comprised in Khasra No. 14//5-**Rs. 10.90 Lacs** 13//1-14// 1/1 Khata No. 364/404 Min as Standing in the name Balwant Sales Corporation, Jalandhar Bye Pass, Ludhiana. 5. Sh. Vikas Jain S/o Late Sh. Kimiti Lal Jain, **Rs. 0.50 Lacs** 16:00 Hrs. 13:00 Hrs House No. 1804/A/6A, Barewal Garden Estate, Ludhiana. 6. Smt. Tina Jain W/o Sh. Vikas Jain, House of Company as per Wasika No.1664 Dated 11.08.2009. No. 1804/A/6A, Barewal Garden Estate, Ludhiana. 7. Smt. Meena Jain W/o Late Sh. Kimiti Lal Jain, House No. 1804/A/6A, Barewal Garden Estate, Ludhiana. 8. OSWAL FASHION PVT. LTD. (Corporate Guarantor) Director, G.T. Road (West) Opp. Balwant Sales Corporation, Jalandhar Bye Pass, Ludhiana. 9. GAYATRI INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED (Corporate Guarantor), Director, G.T. Road (West) Opp. Balwant Sales

Corporation, Jalandhar Bye Pass, Ludhiana. 10. OSWAL POLYCOT (INDIA)LIMITED (Corporate Guarantor) Director, G.T. Road (West) Opp. Balwant Sales Corporation, Jalandhar Bye Pass, Ludhiana. 11. NAVRATAN DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED (Corporate Guarantor) Director, G.T. Road (West) Opp. Balwant Sales Corporation, Jalandhar Bye Pass, Ludhiana. 12. FANTASTIC COMMERCIAL PRIVATE LIMITED (Corporate Guarantor) Director, G.T. Road (West) Opp. Balwant Sales Corporation, Jalandhar Bye Pass, Ludhiana. 13. JMD CLOTH & GARMENTS PRIVATE LIMITED (Corporate Guarantor) Director, Block-III, H. No. 501, Purana Bazar, Ludhiana. 14. OSWAL TRENDS PRIVATE LTD. (Corporate Guarantor) Director, G.T. Road (West) Opp. Balwant Sales Corporation, Jalandhar Bye Pass, Ludhiana. 15. OSWAL FAB KNITS LIMITED (Corporate Guarantor) Director, G.T. Road (West) Opp. Balwant Sales Corporation, Jalandhar Bye Pass, Ludhiana. (Note: "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is".) THIS PUBLICATION IS ALSO 15/30 DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 TO THE ABOVE BORROWERS & GUARANTORS Terms and Conditions of the E-auction are as under:- (1) E-auction is being held on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is basis" and will be conducted "On Line". The auction will be conducted

through the service provider Web Portal (https://baanknet.com). E-auction Tender document containing online e-auction bid form, declaration, General Terms & Conditions of Online auction sale are available in websites: (a) https://sbi.co.in (b) https://baanknet.com (2) To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on the properties. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of properties put on auction and claims / rights / dues / affecting the properties, prior to submitting their bid. The e-auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the bank. The properties are being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the bank. The Authorised Officer / Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims / rights / dues. (3) Interested bidder may deposit Pre-bid EMD with PSB Alliance Pvt. Ltd. before the close of e-auction. Credit of Pre-bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in https://baanknet.com Bank account and updation of such information in the e-auction website. This may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to submit the pre-bid EMD amount well in advance to avoid any last minute problem. (4) In case of sole bidder, he / she has to increase minimum 1 Bid from Reserve Price. (5) The intending bidders should submit the evidence for EMD deposit like UTR number/online Transaction number along with Request Letter for participation in the E-auction, self attested copies of (a) Proof of Identification (KYC) viz. Voter ID Card / Driving Licence / Passport etc. (b) Current Address Proof for communication, (c) PAN card of the bidder (d) Valid e-mail ID (e) contact number (Mobile / Land line) of the bidders etc. to the Authorized Officer of above mentioned Branch of State Bank of India. (6) It shall be the responsibility of the interested bidders to inspect and satisfy themselves about the properties before submission of the bid. (7) The e-Auction / bidding of above properties would be conducted exactly on the scheduled Date and Time as mentioned above by way of inter-se bidding amongst the bidders. The bidders shall improve their offer in multiple of the amount mentioned under the column "Bid Increment Amount" against each property. In case bid is placed in the last 10 minutes of the closing time of the e-auction, the closing time will automatically get extended for 10 minutes. The bidder who submits the highest bid amount (not below the Reserve Price) on closure of e-auction process shall be declared as Successful Bidder and a Communication to that effect will be issued through electronic mode which shall be subject to approval by the Authorised Officer / Secured Creditor (8) The Earnest Money Deposit (EMD) of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded. The Earnest Money Deposit shall not bear any interest. The successful bidders shall have to deposit 25% of the sale price on or before 15th day of sale. The auction sale is subject to confirmation by the Bank. Default in deposit of amount by the successful bidders would entail forfeiture of the whole money already deposited and property shall be put to re-auction and the defaulting bidders shall have no claim / right in respect of property/amount. (9) The prospective qualified bidders may avail online training on e-Auction from PSB Alliance Pvt. Ltd. prior to the date of e-auction. Neither the Authorised Officer / Bank nor PSB Alliance Pvt. Ltd., will be held responsible for any Internet Network Problem / Power failure / any other technical lapses / failure etc. In order to ward-off such contingent situation the interested bidders are requested to ensure that they are technically well equipped with adequate power backup etc. for successfully participating in the e-Auction event. (10) The purchaser shall bear the applicable stamps duties / registration fee/other charges, etc. and also all the statutory/non-statutory dues, taxes, assessment charges, etc. owing to anybody. (11) The Authorised Officers / Bank is not bound to accept the highest offer and has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn / postpone / cancel the e-auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceedings at any stage without assigning any reason therefor. (12) The Sale Certificate will be issued in the name of the purchasers / applicants only and will not be issued in any other names. (13) The sale shall be subject to rules / conditions prescribed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. For further details / enquires if any on the terms and conditions of sale can be obtained from Authorised Officer / State Bank of India of above mentioned Branches or Bank's website (a) https://sbi.co.in (b) https://baanknet.com (14) For further details regarding the above properties /inspection of properties, the intending buyers may contact above mentioned Branches of State Bank of India, Authorised Officer/Contact Person: Mr. Labh Singh, Mobile No. 9417938292 and Mr. Varinder Kumar Pun, Mobile No. 88942-17020, E-mail: sbi.15631@sbi.co.in. All the intending purchasers are also advised to visit https://baanknet.com for any information on procedure of e-auction (15) The Authorised Officer or Bank shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances or any other dues to the Government or anyone else in respect of immovable properties e-auctioned. (16) The Bidders should get themselves registered on (https://baanknet.com) by providing requisite KYC documents and registration fee as per the practice followed by PSB Alliance Pvt. Ltd. well before the auction date. The registration process takes minimum of two working days. (Registration process is detailed on the above website). (17) The Intending bidder should transfer his EMD amount by means of challan generated on his bidder account maintained with PSB Alliance Pvt. Ltd. at https://baanknet.com by means of NEFT/RTGS/Online Transaction/transfer from his bank account. (18) The Intending bidder should take care that the EMD is transferred at least one day before the date of auction and confirm that his wallet maintained with PSB Alliance Pvt. Ltd. is reflecting the EMD amount without which the system will not allow the bidder to participate in the e-auction. (19) The EMD of the unsuccessful bidder will be refunded to their respective wallet maintained with PSB Alliance Pvt. Ltd. The Bidder has to place a request with ebkray for refund of the same back to his bank account. The bidders will not be entitled to claim any interest, costs, expenses and any other charges (if any). DATE: 12.02.2025 PLACE: LUDHIANA

financialexp.epapr.in



AUTHORISED OFFICER, STATE BANK OF INDIA

New Delhi